

एक राष्ट्रीय रबड़ नीतिकी ज़रूरत

संदर्भ

राष्ट्रीय रबड़ नीति (National Rubber Policy-NRP) पर सरकार की पहली रिपोर्ट लंबे इंतज़ार के बाद भी अभी तक जारी नहीं हो सकी है। जाहिर है, विभिन्न हितधारकों के समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषज्ञ समितिके सदस्यों के बीच मतभेद, तीन साल से अधिक समय तक दस्तावेज़ को रोकने का प्रमुख कारण रहा है।

महत्त्वपूर्ण बंदि

- इसी बीच, केरल सरकार और प्राकृतिक रबड़ (Natural Rubber-NR) उत्पादकों के हितों के चलते बढ़ते दबाव के कारण 22 मार्च को सरकार द्वारा रबड़ क्षेत्र के पुनरुद्धार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया गया।
- दूरभाग्य से, एनआर उत्पादन के उच्च क्षेत्रीय संकेंद्रण से उत्पन्न होने वाले हितों के संघर्ष के कारण NRP की आवश्यकता तथा रबड़ की खपत के विसरति (Diffused) पैटर्न को लेकर सर्वसम्मति पर भ्रामक स्थिति बनी रही।
- भारत में NRP विकसित करने की रणनीतिक आवश्यकता समय के साथ अपनी विकासवादी गतिशीलता से उत्पन्न क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं से उत्पन्न होती है।
- विश्व रबड़ अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत का उदभव घरेलू बाज़ार अभिविन्यास में नहिति खंडों के बीच परस्पर संबद्धता के लिये अनूठा था जो 1940 के दशक के आरंभ से संरक्षित नीति व्यवस्था के तहत विकसित हुआ था।
- यह चीन के अपवाद के साथ अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में नरियात उनमुख 'रबड़ अंतःक्षेत्र' (rubber enclaves) के विकास के विपरीत है।
- संक्षेप में नरियात बाज़ारों और बाहरी प्रतिस्पर्धा के सीमिति संपर्क के साथ घरेलू मांग-संचालित परस्पर संबद्धता भारत के रबड़ क्षेत्र की पहचान थी।

पूर्व के सुधार

- हालाँकि, 1991-92 के बाद से व्यापार नीति में सुधार शुरू हुआ और बहुपक्षीय तथा आरटीए मार्गों के माध्यम से विदेशी प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप अनाश्रयता (exposure) ने परिदृश्य को बदल दिया है।
- नरियात बाज़ारों की तुलना में घरेलू बाज़ार में रबड़ और रबड़ उत्पादों के आयात में वृद्धि के कारण बाज़ार एकीकरण की चुनौतियों का सामना किया जाता है।
- एनआर की कीमतों की अस्थिरता और कृषि आय में उतार-चढ़ाव ने परंपरागत कृषि प्रबंधन प्रथाओं के साथ रपिलांटिंग को प्रभावित किया है।
- इस प्रवृत्तिका एक परिणाम यह हुआ है कि देश के कुल टैप वाले क्षेत्र में जीरण (senile) पेड़ों (50 प्रतिशत से अधिक) में लगातार वृद्धि हुई है।
- केरल में एनआर उत्पादकता में नकारात्मक वृद्धिदर (- 2.8 प्रतिशत) तथा 2007-08 और 2016-17 के बीच अखलि भारतीय वृद्धिदर (- 2.7 प्रतिशत) से पता चलता है कि नीति संबंधी नरिदेश विफल हो गए हैं।
- इसी प्रकार, संकटगरस्त गैर-टायर सेगमेंट को अस्थिर कच्चे माल की कीमतों और आयात में वृद्धि ने प्रभावित किया है।
- बाहरी व्यापार मोर्चे पर 2007-08 के बाद से भारत के रबड़ क्षेत्र के व्यापार का नकारात्मक संतुलन पछिले चार दशकों के दौरान व्यापार के सकारात्मक संतुलन के विपरीत रहा है। 2016-17 में रबड़ और रबड़ उत्पादों में भारत का नकारात्मक संतुलन \$ 415 मिलियन था। इसलिये खंडति प्रयास इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने में विफल रहे।
- अन्य प्रमुख एनआर उत्पादक देशों के विपरीत भारत के रबड़ क्षेत्र की नरियात तीव्रता नगण्य रही है। 2014-15 के दौरान अनुमानित नरियात तीव्रता केवल 22.5 प्रतिशत थी।
- इसलिये, एक आत्मनिर्भर रबड़ क्षेत्र को बनाए रखना जिसमें घरेलू वस्तुओं से लेकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तक के अनुप्रयोग शामिल हों, एक प्रमुख नीतिगत चुनौती है।
- फरि भी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय समझौतों के तहत गैर-विचारणीय व्यापार नीति प्रतिबद्धताओं द्वारा बनाई गई बाज़ार एकीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में एनआरपी की आवश्यकता काफी महत्त्वपूर्ण है।
- हालाँकि भारत ने 1942 के प्रारंभ में एक टिकाऊ रबड़ क्षेत्र की प्रासंगिकता को पहचाना था, लेकिन बाज़ार एकीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिये कोई अनुकरणीय मॉडल नहीं है।
- 2002 में शुरू हुई चीन की 'गोइंग ग्लोबल' रणनीति एक मूल्यवान आदर्श प्रारूप है। 2007 में चीन द्वारा प्राकृतिक रबड़ एसोसिएशन की स्थापना और 2011 में चीन इंडस्ट्री एसोसिएशन की रबड़ वैली परियोजना ने संस्थागत ढाँचा प्रदान किया।
- भारत मुक्त व्यापार के लिये पछिले सात दशकों में बनाए गए अपने रबड़ क्षेत्र के क्रमिक विघटन को बर्दाश्त कर रहा है।
- एक व्यापक एनआरपी केवल एक आत्मनिर्भर रबड़ क्षेत्र को बनाए रखने के रणनीतिक महत्त्व को पहचानने के लिये अनिवार्य नहीं है बल्कि बाज़ार

एकीकरण के युग में सहभागिता को बनाए रखने के लिये अंतरनिहित ताकत और एम्बेडेड संरचना की संचति कमजोरियों की पहचान करना भी अनविर्य है।

रबड़ क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे

- इस क्षेत्र से संबंधति प्रमुख मुद्दों में प्राकृतिक रबड़ के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य, आयात पर प्रतर्बंध, न्यूनतम आयात मूल्य, कृषिउत्पाद के रूप में प्राकृतिक रबड़ का वर्गीकरण, कप गाँठों का आयात, सुरक्षा शुल्क और रबड़ बोर्ड को आवंटति बजट राशि में वृद्धिकरना शामिल है।
- देश में करीब 13.2 लाख रबड़ स्माल होल्डिंगि हैं, जनिमें से लगभग 9 लाख केरल में हैं।
- टायर और गैर-टायर क्षेत्रों में 10.45 लाख टन की खपत के मुकाबले 2016-17 में रबड़ उत्पादन 6.91 लाख टन था।
- 2016-17 में प्राकृतिक रबड़ का आयात 4.27 लाख टन हो गया जो पछिले वत्ति वर्ष में 4.58 लाख टन था।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wanted-a-national-rubber-policy>

